



Date: 24.01.2023

Registered and Corporate Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020 CIN: L74899DL1992PLC051527 Tel.: +91-11-26818840/8642/0242, Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2022-23 The Manager, **BSE Limited** Listing Division, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001,

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Reguirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper dippings of an un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2022 and copies of notice of Record Date for Interim Dividend for the FY 2022-23. The Company published the advertisement in the following newspapers.

- 1. Business Standard (All editions) in English Language on 24.01.2023.
- 2. Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 24.01.2023.

This is for the information of the exchange and the members.

Thanking You,

Yours faithfully,

For KEI INDUSTRIES LIMITED



(KISHORE KUNAL) **AVP (Corporate Finance) & Company Secretary** 

CC:

The National Stock Exchange of India Ltd. Listing Division, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

The Calcutta Stock Exchange Ltd. The Senior Manager, Listing Division, 7, Lyons Range, Kolkata-700001

Works-I: Bhiwadi: SP-919/920/922, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Dist. Alwar-301019 (Rajasthan); Tel: 01493-220106/221731, Fax: 01493-221780; E-mail: <a href="mailto:bhiwadi@kei-ind.com">bhiwadi@kei-ind.com</a>

Works-II: Silvassa: 99/2/7, Madhuban Industrial Estate, Rakholi, Silvassa UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu-396230; Tel: +91-7359344404/7359244404; E-mail: silvassa@kei-ind.com

Works-III : Shadasa : 77/21, Madundan Industrial Essat, Mannia, Massad in Jacata Caraga in Jacata Caraga (Chapanki Perait: Chopanki Perait: Ch

No.04, (Old No.23) SIR C P Ramasamy Road, 2<sup>nd</sup> Floor, Near Apollo Spectra Hospital, Alwarpet, Chennai-600018; **Tel**: 044-42009120



# Govt looks to curb smuggling of top-end phones

FinMin considers proposal to reduce basic Customs duty on phones with a cost, insurance and freight value of over ₹35,000

Mobile device makers had been asked

SURAJEET DAS GUPTA

he Finance Ministry is looking at a reworked proposal from mobile device makers on how

to fight the rampant and growing smuggling of very high end phones The proposal suggests reducing the basic customs duty (BCD) on phones which have a CIF (cost, insurance and freight or price at landing in the port) value of over ₹35,000-₹40,000

The retail value of these phones is upwards of ₹70,000. They constitute less than 5 per cent of the country's smartphone sales.

An earlier proposal by the Indian Cellular and Electronics Association (ICEA) last December which suggested a cap of ₹25,000-₹30,000 did not go down well with the Finance Ministry.



impact the domestic production of some

■ Proposal would help companies like Apple, Samsung and Google, which end phone models

■ The market for very high-end phones accounts for less than 5 per cent of overall sales

of these phones which are being man-ufactured in India with a factory price domestic manufacturing, remain reve-

■ Mobile device makers had been asked for recommendations that would protect domestic manufacturing, remain revenue neutral, and limit smuggling

■The taxes lead to the price difference of the same phones in India as compared to the UAE or the US to vary ₹40,000 -₹50,000

■ A 25 per cent reduction in smuggling will ensure revenue neutrality for the government, say mobile device makers

■ Smuggling of premium phones is expected to hit over ₹10,000 crore this year

nue neutral, and limit smuggling The first proposal suggested a BCD flat rate of ₹5,000-₹6,000. The latest says that this could go up to ₹8,000 or more

for a phone.

this year, the smuggling of very premium phones is expected to hit over ₹10,000 crore, out of which ₹8,000 crore accounts. for the most expensive.

Smuggling has been growing year on year due to the huge arbitrage created as a result of the 45 per cent tax levied on imported phones (22 per cent BCD and 18 per cent GST).

In simple terms, the price difference of the same phones in India as compared to Dubai or the US can vary between ₹40.000-₹50.000.

For example, the iPhone 14 Pro of 128 GB is cheaper in Dubai by ₹34,204 and in the US by ₹44,138. The even more expensive iPhone 14 Pro Max with 1 TB is cheaper by ₹52,630 in the US and by ₹38.554 in Dubai.

A change in the tax structure has

been under discussion. If implemented. it would help companies like Apple, Samsung and Google, which import very high end phone models which are not manufactured in India, such as the iPhone 14 Pro and Promax or Google's

Pixel 7 Pro. The domestically produced smartphone industry is already vibrant, accounting for around 95 per cent of the value and 99 per cent in volume terms of the total smartphones sold in India.

Mobile device players say that even if the BCD flat rate is upped to a flat ₹8,000 per phone, and smuggling reduced by 25 per cent, the government will remain revenue neutral.

While it's true that the government could lose revenue from a lower BCD, it will more than make up for any loss from the legal importation of these phones with duty and GST.

# COMPUAGE INFOCOM LIMITED

It raised concerns that the cap would of ₹40,000.

CIN: L99999MH1999PLC135914

Reg. Off.: D-601/602 & G-601/602, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Western Express Highway, Goregaon, Mumbai - 400063

Tel: 022-67114444 | Fax: 022-67114445 | Website: www.compuageindia.com

	(₹.in Lakhs excep													
		-	•		Nr	V	•							
Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Nine months ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Nine months ended	Year ended			
No.	Particulars	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022			
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Total income from operations (net)	1,16,761.56	1,14,176.00	3,35,401.38	2,93,198.12	4,22,395.14	1,16,761.56	1,14,176.00	3,35,401.38	2,93,198.12	4,22,395.14			
2	Net Profit / (Loss) for period (before Tax,													
3	Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,165.07	1,087.60	3,158.95	2,175.84	3,666.21	1,165.07	1,087.66	3,158.95	2,176.62	3,664.08			
3	Net Profit / (Loss) for period before Tax													
4	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,165.07	1,087.60	3,158.95	2,175.84	3,666.21	1,165.07	1,087.66	3,158.95	2,176.62	3,664.08			
	Net Profit / (Loss) for period after Tax													
5	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	849.45	775.99	2,306.04	1,632.34	2,676.98	849.45	776.05	2,306.04	1,633.12	2,674.85			
5	Total Comprehensive Income for the period													
	(Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax)													
	and Other Comrehensive income (after Tax)	849.45	775.99	2,306.04	1,632.34	2,674.88	849.45	776.05	2,306.04	1,633.12	2,672.75			
6	Equity Share Capital	1,715.36	1,299.52	1,715.36	1,299.52	1,299.52	1,715.36	1,299.52	1,715.36	1,299.52	1,299.52			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as													
6 7 8	shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-	23,427.09	-	-	-	-	23,473.00			
8	Earnings Per Share (before and after													
	extraordinary items) (of Rs.2/- each):													
	Basic :	0.99	1.19	2.69	2.51	3.12	0.99	1.19	2.69	2.51	4.11			
	Diluted:	0.99	1.19	2.69	2.51	3.12	0.99	1.19	2.69	2.51	4.11			

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on the Company's website www.compuageindia.com

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on January 23, 2023

Chairman and Managing Director



### **KEI INDUSTRIES LIMITED**

ne: 91-11-26818840/26818642, Fax: 91-11-26811959/26817225 STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

	THE THIRD QUARTER AN	ID NINE M	IONTHS E	NDED 31 <sup>8</sup>	T DECEME	3ER, 2022		
						(₹in	Millions)	
		STAND	ALONE R	ESULTS	CONSOLIDATED RESULTS			
Sr. No	Particulars	ended 31,12,2022	Nine Months ended 31,12,2022		Quarter ended 31.12.2022	Nine Months ended 31,12,2022	ended 31,12,2021	
		Un-Audited					Un-Audited	
1.	Total Income from Operations	17,980.80	49,803.65	15,655.57	17,980.79	49,803.64	15,655.58	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,737.58	4,575.79	1,358.18	1 ,737.49	4,575.48	1,357.95	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,737.58	4,575.79	1,358.18	1,737.49	4,575.48	1,357.95	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,286.11	3,392.76	1,012.48	1,286.02	3,392.45	1,012.25	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,287.50	3,399.29	1,014.17	1,287.32	3,398.97	1,013.93	
6.	Equity Share Capital	180.38	180.38	180.21	180.38	180.38	180.21	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year							
	Earning per share (of ₹2/- each)							
8.	(for continuing and discontinued operations)  1. Basic:	14.26	37.63	11.24	14.26	37.63	11.24	
	2. Diluted:	14.23	37.59	11.19	14.23	37.58	11.19	

ries:
The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results filed with the Stoc changes under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the andalone and Consolidated Un-Audited Financial Results are available on the Stock Exchange's websites at <a href="https://www.bei.ndic.com">www.bei.ndic.com</a>
<a href="https://www.bei.ndic.com">www.bei.ndic.com< For KEI Industries Limited

Place of Signing: New Delhi



next week The Indian lenders failed to hold the second round of auction to sell the assets of Reliance Capital on Monday after the National Company Law Tribunal's (NCLT) Mumbai Bench pronounced an oral order to maintain status till it

passes the final order. The matter is reserved for judgment and the NCLT Bench mentioned that the order will be issued next week.

Torrent, which was the highest bidder in the first round, had moved the NCLT against the lenders move to hold a second round to get better value for Reliance Capital assets Lenders have argued that as both Torrent and Hinduja offers are subcarry out second round of auction. **DEV CHATTERJEE** 





We have served 10 million happy customers across 25 states.

# STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Г.	SI.			Stand	alone		Consolidated					
	No.	Particulars		Nine Months ended December 31, 2022	Quarter ended December 31, 2021	Year ended March 31, 2022	Quarter ended December 31, 2022	Nine Months ended December 31, 2022	Quarter ended December 31, 2021	Year ended March 31, 2022		
			Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
	1	Total Income from Operations	1,093.73	2,921.00	721.85	2,746.45	1,093.89	2,921.52	722.01	2,747.12		
	2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional Items)	130.95	370.89	74.67	156.21	131.15	371.44	74.83	156.85		
	3	Net Profit / (Loss) before tax (after Exceptional Items)	130.95	370.89	74.67	151.21	131.15	371.44	74.83	151.85		
	4	Net Profit / (Loss) after tax (after Exceptional Items)	97.97	277.52	55.88	120.73	98.13	277.94	56.00	121.20		
	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	90.70	287.45	65.36	149.94	90.86	287.87	65.48	150.41		
		Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	217.41	217.41	198.11	201.20	217.41	217.41	198.11	201.20		
_	7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,086.53	1,086.53	708.83	799.06	1,089.10	1,089.10	710.86	801.22		
_	8	Securities Premium	1,147.16	1,147.16	816.46	863.37	1,147.16	1,147.16	816.47	863.38		
_	9	Net Worth	2,451.10	2,451.10	1,723.40	1,863.63	2,453.67	2,453.67	1,725.44	1,865.80		
		Paid up debt capital / outstanding debt	18,764.54	18,764.54	12,215.83	12,964.11	18,764.54	18,764.54	12,215.83	12,964.11		
_		Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Debt Equity Ratio	7.66	7.66	7.09	6.96	7.65	7.65	7.09	6.95		
	13	Earnings Per Share (Face value of Rs.10/- each) (not annualised) (In Rs.)										
		(i) Basic	4.67	13.60	2.82	6.17	4.68	13.62	2.82	6.20		
		(ii) Diluted	4.67	13.60	2.82	6.17	4.68	13.62	2.82	6.20		
	_	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15	Debenture Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-		
	16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	18	Current Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
_	19	Long Term Debt To Working Capital	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	20	Bad Debts To Account Receivable Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	_	Current Liability Ratio	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
_	22	Total Debts To Total Assets	84.38%	84.38%	83.69%	83.86%	84.37%	84.37%	83.68%	83.84%		
_	23	Debtors' Turnover	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	24	Inventory Turnover	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
		Operating Margin Percent	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	26	Net Profit Margin Percent	8.95%	9.49%	7.72%	4.38%	8.97%	9.50%	7.74%	4.40%		

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on January 23, 2023 and subjected to limited review by joint statutory auditors, pursuant to regulation 52 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Paragraph 7 of Operational Circular SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2021/613 "Continuous disclosure requirements for listed Commercial Paper" dated 10th August 2021, as amended.
- 2 During the quarter ended December 31, 2022 the Company allotted 81,08,108 equity shares to M/s. TVS Motor Company Limited by way of preferential issue.
- 3 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock exchange website (www.nseindia.com) and on Company's website.
- 4 The Company has prepared these standalone and consolidated financial results in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of
- 5 Figures of previous periods have been regrouped, wherever necessary, to make them comparable with the current period

For TVS CREDIT SERVICES LIMITED Sd/-Venu Srinivasan

Chairman

# TVS CREDIT SERVICES LIMITED

Regd office: "Chaitanya", No.12, Khader Nawaz Khan Road, Chennai 600 006.

CIN: U65920TN2008PLC069758 | Tel: 044-2833 2115 | Fax: 044-2833 2113 | Website: www.tvscredit.com | Email: Secretarial@tvscredit.com





Date : January 23, 2023





















# **ELGI ULTRA INDUSTRIES LIMITED**

(CIN: U29253TZ1981PLC001104) Regd. Office: India House, New No.1443/1, Trichy Road, Coimbatore- 641018, Tamilnadu.

FORM NO. INC-25A

ADVERTISEMENT FOR CONVERSION OF PUBLIC COMPANY INTO A PRIVATE COMPANY
Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs
Southern Region
In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
And

In the matter of M/s. ELGI ULTRA INDUSTRIES LIMITED

naving its registered office India House, New No.1443/1 Frichy Road, Coimbatore- 641018, Tamilnadu.

Anil Gupta n-cum-Managing Dir DIN: 00006422

Trichy Road, Coimbatore- 641018, Tamilnadu.

Applicant Notice is hereby given to the general public that the Company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 13th January 2023 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/ status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Southern Region situated at 5th Floor, Shastis Bhawan, 26, Haddows Road, Chennai — 600006, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office of the address mentioned below:

For and on behalf of ELGI ULTRA INDUSTRIES LIMITED (the applicant)

Dated: 24.01.2023 Directc
Place: Coimbatore
Regd. Office: India House, New No.1443/1, Trichy Road,
Coimbatore- 641018.



Phone: 033-2243 5453, 2242 9454, 2213 5121; Website: www.kesocorp.com; E-mail: corporate@kesoram.com POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 110 and 108 and other applicable provisions, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Rules notified thereunder, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretariaes of India, and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Company Secretaries of India, and the SEB (Listing Obligations and Discosori Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI - LODR Regulations") that a Resolution seeking general body approval to sell/transfer or otherwise dispose off an undertaking comprised in its Hindusthan Heavy Chemicals Unit situated in the State of West Bengal, is roposed to be passed as a Special Resolution through Postal Ballot only by voting

proposed to be passed as a special resolution intoger resident only by voting through electronic means ("remote e-Voting"). Communication of assent or dissent by Members shall take place only through the remote e-Voting system. In compiliance with the relevant MCA Circulars, the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement has been sent on January 23, 2023, through the electronic mode only to all those Shareholders whose names appear in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories and whose e-mail addresses are recipiered with the Company's Benistra and Share Transfer whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfe Agent/ Depositories as on the Cut-off date i.e. Friday, January 20, 2023 ("Cut-off date" mmunication of assent or dissent of Members will take place only through the remote

holders may note that this Postal Ballot Notice is also available on the website of th Company at www.kesocopt.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited National Stock Exchange of India Limited and The Calcutta Stock Exchange Limited a vw.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively and webs

of NSDL at <u>www.evoting.nsdl.com</u>. The Company has engaged the services of National Securities Depository limited (NSDL provide e-voting facility. Ritu Bajai (Membership No. FCS 9913) of RP & Associate Practising Company Secretaries, has been appointed by the Board of Directors of the ompany as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot through remote e-Voting proce a fair and transparent manner.

in a rail and using particularities.
The remote e-Voting period commences on Tuesday, January 24, 2023 from 9:00
A.M. (IST) and ends on Wednesday, February 22, 2023 at 5:00 P.M. (IST). The e-Voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Voting rights of Shareholders shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company

The results of e-voting shall be intimated to BSE Limited, National Stock Exchange of India imited, The Calcutta Stock Exchange Limited, where the shares of the Company are isted no later than February 24, 2022, and will also be uploaded on the website of the

or instructions on e-Voting, Shareholders are requested to note the instruction

Members who need assistance connected with the e-Voting facility can contact Mr. Amit Vishal, Asst. Vice President/ Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL on evoting@nsdl.co.in, toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Registered Office:

Date: January 23, 2023



Regd, Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase – 1, New Delhi – 110020 CIN: 174890L1992PL\_C051527 Tel.: +91-11-26818840, 26818642, 26815558 2681559; Fax: +91-11-2681199, 26817225; Email: t-s@kei-Ind.com; Website: www.kei-ind.com

### NOTICE

Pursuant to Regulation 42 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board of Directors at its meeting held on 23<sup>rd</sup> day of January 2023, has declared an Interim Dividend o ₹ 3.00/- per Equity Share (i.e. @ 150%) of ace value of ₹ 2.00/- each for the Financial Year 2022-23 and has fixed, 03rd day of February, 2023, as "Record Date" for the ourpose of determining the shareholders pentitled to receive the interim dividend on the equity shares of the company for the Financial Year 2022-23.

nvestors may visit the website of the Company (<u>www.kei-ind.com</u>) and Stock Exchange's website (<u>www.bseindia.com</u> and www.nseindia.com) for further details. For KEI INDUSTRIES LIMITED

Date: 23.01.2023 Place: New Delhi AVP (Corporate Finar (Kishore Kunal)

## CORRIGENDUM

Vith reference to the E-Auction notice of Sale of C& C Constructions Limited as a Going Concern under liquidation published in "Business Standard" newspaper on 23rd January 2023, please read the EMD amount as Rs. 5 Crores instead of earlier published therein. All other contents of the aid notice shall remain unchanged.

Sd/- Navneet Kumar Gunta



Bank of Baroda invites proposals for Annual Maintenance

Contract of Computer Hardware & Peripherals at various Branches / Offices in India. Details are available on Bank's website www.bankofbaroda.in

under Tenders section and on Government e Marketplace (GeM) portal. "Addendum", if any, shall be published on Bank's website

www.bankofbaroda.in under Tenders section. Bidder must refer the same before final submission of the proposal.

Last date for bid submission: 13th February 2023

Place: Mumbai Date: 23.01.2023 Chief General Manager (IT) <sup>∞</sup>⊆









E	Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2022													
		(₹ in La												
		(	Quarter Ended		Nine Mon	ths Ended	Year Ended							
S. No.	Particulars	31/Dec/22 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	31/Dec/21 (Unaudited)	31/Dec/22 (Unaudited)	31/Dec/21 (Unaudited)	31/Mar/22 (Audited/ Restated)							
1.	Total Income from Operations	69,708.13	54,782.59	34,800.85	174,311.23	106,157.51	154,856.97							
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,017.58	1,069.37	2,461.06	4,249.52	4,360.33	12,938.17							
3.	Net Profit/ (Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,017.58	1,069.37	2,461.06	4,249.52	4,360.33	12,938.17							
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,496.16	793.71	1,792.49	3,091.32	3,136.66	10,230.51							
5.	Total Comprehensive Income for the period	1,055.16	678.52	1,771.38	2,535.13	3,115.55	10,272.05							
6.	Paid up Equity Share Capital	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76	6,638.76							
7.	Other Equity	-	-	-	-	-	81,149.87							
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)													
	a) Basic (₹ per share)	₹ 2.25	₹ 1.2	₹ 2.7	₹ 4.66	₹ 4.72	₹ 15.41							
	b) Diluted (₹ per share)	₹ 2.25	₹ 1.2	₹ 2.7	₹ 4.66	₹ 4.72	₹ 15.41							

The above Consolidated financial results were reviewed by the Audit Committee meeting held on January 23, 2023. The statutory auditors have carried out a limited review of these Consolidated financial results.

- The Scheme of demerger has been effective from May 3, 2022 and as per terms of scheme, the Company has alloted 6,63,87,590 equity shares on May 23, 2022. The equity shares of the Company has been listed on BSE Limited and National Stock Exchange Limited on September 08, 2022. Figures for the quarter and nine month ended December 31, 2021 are not reviewed by the auditors and these are derived from the earlier published/reviewed consolidated financial results of Dhampur Sugar Millis Ltd. relating to the three demerged under the Scheme. The derived results are further adjusted for the accounting policies now being followed by the company.
- Consequent to revision in the wage rates of employees covered under Wage Board with retrospective effect from October 1, 2018, the company has accounted for additional liability of ₹ 8.51 Crore under Employees Benefits expenses during the quarter ended September 30, 2022.

  On a review, being undertaken during the quarter, in terms of Ind AS 108 "Operating Segment", "Sugar" and "Bio Fuel & Spirit' have been identified as operating segments pertaining to the Group's operation and segmental information, including for the previous periods have accordingly been compiled/restated and disclosed in the results.
- The consolidated unaudited financial results are available on the website of the Company (www.Dhampur.com). The specified items of the standalone unaudited financial results of the Company are given below:

	(	Quarter Ended		Nine Mon	Year Ended	
Particulars	31/Dec/22 (Unaudited)	30/Sep/22 (Unaudited)	31/Dec/21 (Unaudited)	31/Dec/22 (Unaudited)	31/Dec/21 (Unaudited)	31/Mar/22 (Audited/ Restated)
Total Income	69,424.69	54,643.36	34,790.05	173,883.12	106,062.16	154,812.99
Profit before tax	1,895.00	1,031.85	2,540.08	4,166.94	4,694.14	12,974.55
Profit after tax	1,373.58	756.19	1,871.51	3,008.74	3,470.47	10,405.45

Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company

Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

For and on behalf of the Board

Vijay Kumar Goel

# DHAMPUR BIO ORGANICS LIMITED

Regd. Office: Sugar Mill Compound, Village Asmoli Sambhal Moradabad, UP - 244304 IN CIN - L15100UP2020PLC136939. Phone No - 011-69055200 Email: investors@dhampur.com, Website - www.dhampur.com

# **Karur Vysya Bank** Smart way to bank Consistent Growth and Profitability... www.kvb.co.in | Helpline: 1860 258 1916 **(f)** (0) ♥ (in) □

Place: New Delhi

# UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER 2022

(₹ in lakh)

		OTAODITED I ITATIONE REGOLIO I OTT THE G	COARTER ENDED OF	DEGEMBER 2022	( m lakii)
TOTAL BUSINESS		PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2022 (Audited)
₹1,39,062 CR	1.	Total income from Operations	201271	160012	635673
TOTAL DEDOCITO	TAL BUSINESS  1. Total income fro  2. Net Profit/(Loss  3. Net Profit/(Loss  4. Net Profit/(Loss  4. Net Profit/(Loss  5. Total Compreher and Other Comp  6. Paid - up Equity  7. Reserves (Includent Services)  8. Securities Premeded Securities Pr	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	32486	25549	93092
	3.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	32486	25549	93092
₹76,175 CR	4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28929	18548	67327
TOTAL ADVANCES	5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	Not applicable		
₹ <b>62.887 CR</b>	6.	Paid - up Equity Share Capital	16019	15987	16000
•	7.	Reserves (Including proposed dividend and excluding Revaluation Reserve)	<b>743620</b> (As on 31.03.2022)	<b>679988</b> (As on 31.03.2021)	<b>743620</b> (As on 31.03.2022)
	8.	Securities Premium Amount		Not applicable	
	9.	Net Worth	819844	733292	741781
\289 GR	10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt ( %)	33.07	37.57	36.37
PCR	11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil
	12.	Debt Equity Ratio	0.05	0.11	0.09
30.01.10		Earnings Per Share (Face value of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)*			
CRAR	13.	a. Basic (₹)	3.61	2.32	8.42
17.86 %		b. Diluted (₹)	3.60	2.32	8.41
11130	14.	Capital Redemption Reserve			
Net NPA	15.	Debenture Redemption Reserve		Net and Early	
0.89%	16.	Debt Service Coverage Ratio		Not applicable	
0.09/0	17	Interest Service Coverage Batio			

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the website of the Bank https://www.kvb.co.in/about-us/financial-performance/ and stock exchanges at http://www.nseindia.com and http://www.bseindia.com. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on http://www.nseindia.com.

Place: Karur | Date: January 23, 2023

17. Interest Service Coverage Ratio

For and on behalf of Board of Directors,

B. Ramesh Babu

THE KARUR VYSYA BANK LIMITED, Registered & Central Office, No. 20, Erode Road, Vadivel Nagar, L.N.S., Karur - 639 002. Tek No: 04324-269441 | Fax No: 04324-225700 | E-mail: kvb\_sig@kvbmail.com | CIL No: L65110TN1916PLC001295















केईआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

कृत कार्यालयः डी–90, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज–।, नई दिल्ली–110 फोन: 91-11-26818840/26818642, फैक्स: 91-11-26811959/26817225 वेबसाइट: <u>www.kei-ind.com,</u> ई--मेल आईडी: <u>cs@kei-ind.com</u> (सीआईएन: L74899DL1992PLC051527)

31 दिसम्बर, 2022 का समाप्त तृतीय तिमाही और नौमाही के स्टैंडअलोन और समेकित

Г	अ—लखाप	रादिता ।पर	ताय पारणा	ना प्राप्त	14.01	(₹	मिलियंस में)	
		स्टैं	डअलोन पर्वि	रेणाम	समेकित परिणाम			
क्र सं.		समाप्त तिमाही 31.12.2022	समाप्त नौमाही 31.12.2022	समाप्त तिमाही 31.12.2021	समाप्त तिमाही 31.12.2022	समाप्त नौमाही 31.12.2022	समाप्त तिमाही 31.12.2021	
		अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	अ—लेखापरीक्षित	
1.	परिचालन से कुल आय	17,980.80	49,803.65	15,655.57	17,980.79	49,803.64	15,655.58	
2.	शुद्ध लाम / (हानि) की अवधि के लिए (कर, अपवाद और / या असाधारण मदों से पहले)	1,737.58	4,575.79	1,358.18	1 ,737.49	4,575.48	1,357.95	
3.	शुद्ध लाम / (हानि) कर से पहले की अवधि के लिए (अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद)	1,737.58	4,575.79	1,358.18	1,737.49	4,575.48	1,357.95	
4.	शुद्ध लाभ / (हानि) कर के बाद की अवधि के लिए (अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद)	1,200.11	3,392.76	1,012.48	1,286.02	3,392.45	1,012.25	
5.	कुल व्यापक आय अवधि के लिए [शामिल लाम/ (हानि) अवधि के लिए (कर पश्चात्) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)]	1,287.50	3,399.29	1,014.17	1,287.32	3,398.97	1,013.93	
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	180.38	180.38	180.21	180.38	180.38	180.21	
7.	संचेय (पुनरमुल्यन संचेय को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है)							
8.	प्रति शेयर अर्जन (₹2/-प्रत्येक का) (चल रहे तथा बंद प्रचालनों हेतू)— 1. मूलः	14.26	37.63	11,24	14.26	37.63	11,24	
ı	2. तनुकृतः	14.23	37.59	11.19	14.23	37.58	11.19	
नो					,,,,,	,,,,,,		

ा. उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) अधिनियम 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सकेन्जों में प्रस्तुत किए गए एकत और समेकित अ—रोखामरीक्षित वित्तीय परिणामी के विस्तृत प्रारूप का सीवींन रूप हैं। एकत और समेकित अ—रोखामरीक्षित वित्तीय परिणामी का पूर्ण प्रारम स्टीक एक्सकेन्जेज की वेबसाइट्स <mark>www.bseindia.com</mark>, <u>www.nseindia.com</u> और कंपनी की वेबसाइट् <u>www.kei-ind.com</u> पर भी उपलब्ध हैं। कृते केईआई इण्डस्ट्रीण लिमिटेड

हस्ताक्षर करने का स्थानः नई दिल्ली दिनाकः 23 जनवरी, 2023

(अनिल गुप्ता) चेयरमैन—सह—मैनेजिंग डायरेक्टर डीआईएनः 00006422

सार्वजनिक सूचना

तके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि र विकृत **प्रदीप छेछी पुत्र श्रीचंद सिंह**, संपत्ति **एक खा**व

(विकित्त प्रतिप छेपी पुत्र भीव्य सिंह, संपति एक खाली पावालीय पर बाता ने 00015, खराता ने 322/83, मां वालायीय पर बाता ने 00015, खराता ने 322/83, मां वालायीय पर बाता ने 00015, खराता ने इंटिन्स के मिला-हिम्म सुद्ध नगर, उ.थ. 2013 10 (क्षेप्रक्रण 377 वर्ग गेका, मार्थिक हैं, पंचीकृत उपग्राद विलेख द्वारा दिनांक 19-12-022 द्वारा श्री श्रीचंद सिंह पुत्र श्री जमानत के पध्य में दस्ताविज में 28462 पुस्तक से... मेलियून से 42085, पृष्ठ 49-360, पस्त्र शर्टर शेटर गोददा गीतम स्त्र गरार पावातित किया गया और में मूर्विकल दूर गरार पावातित किया गया के से मूर्विकल दूर पिडलेक स्त्र मार्थ अपारित हो आपि है उस प्रति स्त्र के आपि है आपि है उस स्त्र मार्थ अपारित हो के साथ प्रति स्त्र मार्थ सिंहर के स्त्र स्त्र के स्त्र स्त्र स्त्र के अपार्थ स्त्र मार्थ स्त्र मार्थ स्त्र मार्थ स्त्र स्त्र स्त्र के अपार्थ स्त्र मार्थ स्त्र मार्थ स्त्र मार्थ स्त्र स्त्र स्त्र के अपार्थ स्त्र स्त्र स्त्र के अपार्थ स्त्र है। करण प्रनाद (एडकोकेट)

(07982557892) (varunphogaat@live.com

साटिन हाऊसिंग फाइनेंस लि. पंजीकृत कार्यालयः ठवौं तल, कुंदन भवन, दुर कमर्शियल कॉम्पलैक्स, आजादपुर, नई दिल्ली—1 र्यालयः 492, उद्योग विहार, फेज—3, गुरूग्राम, हरिया

**गीलागी सह बिकी हेतु सार्वजनिक सूछना** कर्जदार / ओं से बकाया राशि की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत **साटिन डाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहाँ नीचे उल्लिखित प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे उल्लिखित अचल संपत्ति जो भौतिक कब्जे में है, की ''जो है जहाँ है और जहाँ हैं जैसी है'' आधार पर खरीद हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं, जिसक

कर्जदार(ऑ) / जमानती(ऑ)	मांग सूचना की तारीख और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ईएमडी)
ऋण सं. LAGZB10200002187 1. सूरज कुमार बेहरा (कर्जदार) 2. पूर्णिमा बेहरा (सह—कर्जदार)	रु. 1641910/= (रुपय सालह लाख इकतालीस हजार नौ सौ		रु.18,36,803/- (रुपये अठारह लाख छत्तीस हजार आठ सौ तीन मात्र)	रु.185000 /— (रुपये एक लाख पिचासी हजार मात्र)

यहाँ ऊपर चल्लिखित कारपोरेट कार्यालय पते पर ईएमडी सहित निर्धारित निर्धित प्रपन्न में महरबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 28.01.2023 हैं अपूर्ण भरी हुई निविदाओं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं को अविधिमान्य निविदा माना जायेगा और तद्नुसार अस्वीकार हो जायेगी। ईएम

यहाँ ऊपर उल्लिखित कारपोरेट कार्यालय पते पर संपत्ति के लिए प्रस्ताव खोलने की तिथि समय पूर्वा, 11:00 बजे 20.01.2023 है। निविदा प्राधिक अधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेंगी।

अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि समय **पूर्वा. 11:00 से अप. 16:00 तक 29.01.2023** है।

नोटिस में बकाया राशि पर ऋण करार के अनुसार यथालागू आगे की ब्याज प्रभारित होगी और इसकी क्सूली तक प्रासांगिक व्यय, लागतें आदि देय

एतदद्वारा कर्जदार और जमानती को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और बिक्री के निबंधन व शतों के अनसार यहाँ वर्णित अचल संपित की खरीद हेतु इच्छुक खरीदार/क्रेता लाने का नोटिस दिया जाता है।

एतदद्वारा कर्जदार(ओं) जमानती(ओं) को नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए **सरफासी अधिनियम, 2002 के तहत 30 दि**न विक्री नोटिस दिया जाता है, अन्यथा अचल संपत्ति की नीलामी की जायेगी और रोष राशि यदि कोई हो, की वसूली व्याज व लागतों सहित की जायेगी यदि कर्जदार बिक्री की तिथि से पूर्व साटिन हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड को बकाया देय राशि का भुगतान कर देता है तो नीलामी रोकी जा सकती है

नीलामी बिक्री के विस्तृत निबंधन व शते निविदा प्रपन्न में दिए गए हैं। निविदा प्रपन्न उपर्युक्त कारपोरेट कार्यालय में उपलब्ध हैं। अचल संपत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीकार को की जायेगी। हालांकि, यदि जरूरी समझा गया तो परस्पर बोली कराने की अनुमति देने का विवेकाधिय

अधोहस्ताक्षरी का होगा। . कंपनी ऐसी किसी देवता के लिए जिम्मेदार नहीं है जो कंपनी की जानकारी में नहीं हैं।

भन्य किसी विवरण के लिए उपरोक्त कारपोरेट कार्यालय पते पर प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश कुमार डांगी, मोबाइल नं. 9812394885 को संपर्क करें। हस्ता./– प्राधिकृत अधिकार्र साटिन हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटे

**स्थानः** गुडगाँव **दिनांकः** 23.01.2023

परिशिष्ट Ⅳ देखें नियम 8(1)

कच्चा सचन

इंडि<mark>याबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (आइएचएफएल)</mark> प्राधिकृत अधिकारी होने के ना सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपय करके कर्जदार रवींद्र कुमार, अनुराधा और अनुज शर्मा को 16.09.2021 की सूचना में वर्णन वे भनुसार कर्ज खाता नं .R051OXXIII (आइएचएफएल का पहले लोन खाता नं .HHLMER00223411 की राशि रू.19,62,535,94 /- (रुपए उन्नीस लाख बासठ हजार पाँच सौ पैंतीस और चौरानवे पैसे मात्र) और 26,06,2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिन के भीतर चुकता करने का आबाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। पहले आइएचएफएल दिनांक 31.12.2021 के असाइनमेंट करार द्वारा इंडियाबुल्स एआरसी-XXIII के टस्ट के टस्टी के रू i इंडि<mark>याबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड</mark> के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिका ार्षक और ब्याज को सोंपा गया है। इसके अलावा इंडि**याबुल्स एआरसी-XXIII के ट्रस्ट के ट्रस्टी** के रू में **इंडियाबल्स एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड ने** दिनांक 29.06.2022 के असाइनमेंट करार दार रसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रवशन एंटरप्राइज लिमिटेड (एसीआरई) के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अप , सभी अधिकार, शिर्षक और ब्याज को सोंपा गया है और लोन खाता। एसीआरई की बुक्स में लोन खाता

R051OXXIII के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है I धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानन के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्टेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तह गप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.01.2023 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान कि जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू. 1**9,62,535.94**/-**(रुप**ए उन्नीस लाख बासठ हजार पाँ**र सौ पैंतीस और चौरानवे पैसे मात्र) 26.06.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ एसेट्स केअर एन रेकस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्ग संपति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण प्लॉट नं. B-303, सेक्टर -5, अंसल सुशांत सिटी, वेदव्यासपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250002।

दिनांक : 18.01.2023 एसेट्स केअर एन्ड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड स्थान : मेरठ

# कब्जा सूचना

नाम से ज्ञात) के पाधिकत अधिकारी होने के नाते वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उडाराकर्ता(औ)/ स्बर-उंधारकर्ता(औं) को मेंग्य, सूचार्यों जाएं कर उधारकर्ताओं को उनके नामों के विरुद्ध देय राशि, लागू आकस्मिक खर्चों के रूप में भृतिष्य के ब्याज के साथ, लागत्, मुगतान और / या वसूली को दिनांक तक किए गए शुल्क आदि के साथ के साथ उक्त सूचना की प्राप्ता से **60 दिनों** के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) सूचना दिनांक/ बकाया देय (रूपये में) तक	दिनांक/समय और कब्जे का प्रका
1	45129660002244 और 45128640001308	(2) श्री राजेश पांचाल	02.11.2022 रु. 25,42,943/— (रुपये पच्चीस लाख बयासी हजार नौ सौ तैंतालीस मात्र) दिनांक 28.10.2022 तक	दिनांक 21.01.2023 समय : पूर्वाह्र 09:40 बजे सांक्रेतिक कब्जा

<u>प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण :</u> मकान सं. 152, ख.सं. 1026/918/899/479 0—11—0) बिसवा 38/220, मापक क्षेत्र 280 वर्ग गज ग्राम शिवाना, बसाई, गुडगांव हरियाणा, राजेश पांचाल पुत्र जीत राम और श्री रविंद्र, पुत्र जीत राम सीमांकन प्रकार : पूर्व चंदर का मकान, पश्चिम : 10 फुट रास्ता, <mark>उत्तर :</mark> धर्मवीर की संपत्ति, **दक्षिण** : प्रकाश की संपत्ति

जबकि कपर उल्लेखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता, देय राशि चुकाने व जबिक, ऊपर उल्लेखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता, देय पाशि चुकाने में बिकल रहे हैं, एतद ह्वाप विशेष कर से उपर उल्लेखित उधारकर्ताओं को और सामान्य रूप से जन्म ता को स्त्री सुवित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बँक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त सिक्तियों के प्रयोग में उपरेश दिनाकों पर उपर्युक कहा विशित सिक्ती / प्रत्यापुत परिसंपतियों का सांकितिक कब्जा कर विया है। विशेष रूपमें उपरेश उत्तर उत् ह प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिव प्रति. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड देनांक : 24.0 1.2023

**्या** जना स्मॉल फाइनेंस बैंक

जारा भाइनास बिक (ज अनुसूचि व्यावादिक बंक) पंजीकृत कार्यालय : द फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 12/2वी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिग रोड, इंपीएल बिजनेस पार्क के पास, चलाचट्टा, बेंगलोर-560071. शाखा कार्यालय : 16/12, दूसरा तल, ख्डल्यू ई.ए., आर्या समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

IndiaShelter

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजिकत कार्यालय:-प्लॉट नं. 15.6वॉ तल.सेक्टर -44.इंस्टीटयशनल परिया.गडगॉव हरियाणा-122002

बाकि, बर्तामान मंत्रिया मेरूर फ्लेनिक कोरीजग लिग्निक के प्रतिकाश किया मेरिकारिया आहेती हैं कि एक्टिन निविक्त प (स्तु पूर्वन) निवाय प्रतिकाश के प्

ı	संध	त्तियोग के संबंध में कोई भी संव्यवहार न करें एवं संव्यवहार इंडिय	। शेल्टर फाईनैस कॉर्पौरेशन लिमिटेड के पास बंधकत्व आधार पर निम्न	।कितराशि एवं व्याज , लागत आदि आधार पर होगा ।	
ĭ	क स	ऋणी/जमानतदार . (सम्पत्ति का मालिक) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित∕ बंधक सम्पत्ति का विवरण म्पत्ति के शामिल समस्त शेव एवं सम्पूर्ण भाग )	मागं सूचना की दिनांक एवं बकाया राशि मांग सूचना की दिनांक तक	भौतिक कब्जे की दिनांक
	1.	उत्तर प्रदेश -262802 यह भी:-चार्ड नंबर 22, गुरु नानक नगर, संगरिया, हनुमानगद, राजस्थान- 335063 ऋण खाता संख्या HL15CHLONS000005035094	221C करापेट एरिया क्षेत्रभल 532 वर्षभंग्रेट मिलड अप एरिया 530 वर्षभंग्रेट और सुपर बिल्ट अग्र एरिया 630 वर्षभंग्रेट को गरेड होम की दूसरी मेंजिल वर्ज 3Rtp) 5.No.188/188(47), किला गंबर 11,2,0,21 का हिस्सा, तह:संगरिया जिला- हनुमानगढ़ राजस्थान पर स्थित हैं। मीमा: उत्तर: - पलैट संख्या एल-22, दक्षिण: पलैट संख्या एल-20,	कार पुर्वभारतभाव (अरुपर) करा है कि लाख प्रचास हजार दो सी पचहत्तर और चीरासी पैसे )07.09.2022 तक बकाया + दिनांक 08.09.2022 से भुगतान तिथी तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	18.01.2023
				<del></del>	

अधिक जानकारी के लिये कृप्या भी सिद्धार्थ सिंह (+91 7891119990 ) और भी तपन अजमेरा (98298-52000 ) से सम्पर्क करे - राजस्थान/ उत्तर प्रदेश दिलंक:-24.01.2023 (प्राधिकृत अधिकारी ) इंडिया शेल्टर फाईनेंस कॉपोरेशन लिमिटेड

बैंक ऑफ़ इंडिया **BOI** 🖈

नूह शाखा : नूह , तहसील नूह, जिला नूह , मेवात-122007, फोन: 01267-271006, ई–मेल : Nuh.chandigarh@bankofindia.co.in

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी **बैंक ऑफ इंडिया, नूह शाखा** के **प्राधिकृत अधिकारी** होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिमूर्तिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न उल्लेखित उद्याजकर्ता(ओं)को धारा 13(2) के तहत मांग सूचना नीचे दिए गए खाते के विरुद्ध वर्णित दिनांकं पर जारी कि थी और उन्हें उक्त सूचना की प्राप्ति की दिनांक से 80 दिनों के मीतर राशि चुकाने का आद्वान किया गया।

उधारकता(ऑ) राशि बुकाने में विभव्त रहा है, एतद् द्वारा उधारकर्ता(ओं)/मारंटर(सें) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर ने अधिनियम चारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम् खाते के विरुद्ध वर्णित दिनांकों पर नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया।

उधारकर्ता (ओ) से विशेष रूप से और आम तौर पर जनता को एतद द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के सा कोई भी व्यवहार **पलवल शाखा** फरीदाबाद के साथ बंधक की राशि और उस पर ब्याज के साथ **बैंक ऑफ इंडिया , नूह शाखा** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनयम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, तावि ात्याभृत परिसंपत्तियों को छूडाया जा सके।

उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना की दिनांक		मांग सूचना दिनांक को बकाया राशि	अचल परिसंपत्ति का विवरण
धारकता(ओं): श्री गोपाल नुत्र श्री भगवती प्रसाद और श्री भगवती प्रसाद पुत्र राम स्वरूप	संग 31.03.20	021 से भविष्य का	) ब्याज उसपर <b>@ 7.25</b> % मी लागतों, प्रभारों और बैंक	संपत्ति निहित मकान सं. एमसीएफ प्लॉट सं. 14 (पुराना प्लॉट सं. 3/ए), खैवत सं. 307 का शेष भाग, रेक्ट सं. 92, किल्ला सं. 4(8–0), खैवत सं. 306, रेक्ट सं. 92,

किल्ला सं. 25/(5–3), खेवत सं. 305, मिन, रेक्ट सं. 91, किल्ला सं. 25(0–1), रेक्ट सं. 92, किल्ला सं. 5(4–0) स्थित सुभा कॉलोनी, लालकोठी के पास, बल्लभुगढ़, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा मापक 71.00 वर्ग गज स्वामित्व और कब्जा द्वारा श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी मकान सं. एमसीएक 14, सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग **सीमांकन :– उत्तर** : अन्य संपत्ति, **पूर्व** : किशन चंद्र की संपत्ति, **पश्चिम** : श्री विजय का प्लॉट सं. 3 / एका भाग, **दक्षिण** : 30 फुट सड़क

उधारकता(ओं): श्री शौकत | 10.10.2022 | 18.01.2023 | क. 18.08.562.29/- संपत्ति निहित मकान सं. एमसीएफ 1680 \_\_\_ संग **२ 1.06.2022** से भविष्य का ब्याज उसपर **@** 

गज खसरा सं. 92//3 का पुराना भा 7.90% वार्षिक चक्रवत्ती मासिक दर और सभी लागतों . प्रभारों और बैंक द्वारा खर्च व्ययों स्थित सुभाष कॉलोनी, मौजा बल्ल

तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा श्री शौकत पुत्र इलयास के नाम, निवासी मकान सं. 5829, गली सं. 1, विष्णु कॉलोनी अनाज मंडी के पास, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। **सीमांकन :– उत्तर**ः 15 फुट रास्ता; **पूर्व**ः श्री धर्म का प्लॉट सं. ९ का शेष भाग **पश्चिम** प्रजॉट सं 10 **दक्षिण** अन्य संपत्ति

उधारकता(ओं): श्री विवेक | 10.10.2022 | **18.01.2023** | रू. 13,85,897.57/– संग 0 1.05.202 1 से भविष्य का ब्याज उसपर @ 7.35% प्लॉट सं. 42 का भाग), खैवत खाता स 45/52 का पुराना भाग, खसरा स 11र्षिक चक्रवृत्ती मासिक दर और सभी लागतों , प्रभारों और बैंक द्वारा खर्च व्ययों

4(8–0), 5(8–0) स्थित बालाजी कॉलेज के पास, हरी विहार, आदर्श नगर, मौजा ऊंचा गांव, तहसील बल्लाभगढ़, जिला फरीदाबा हरियाणा–121004, मापक 55 वर्ग गज श्री बिवेक गुप्ता पुत्र श्री प्रमोद गुप्ता के नाम निवासी मकान सं. 5036, एफ-ब्लॉक, आदर्श नगर, बल्लामण जेला फरीदाबाद का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग । **सीमांकन :— उत्तर** : 15 फेट रास्ता: **पूर्व :** प्लॉट सं. 42 का शेष भाग, **पश्चिम :** प्लॉट सं. 43, **दक्षिण** नॉट सं. 76-77

उधारकता(ओं) : श्रीमती **10.10.2022 18.01.2023** रू. 10,63,650.10/- संपत्ति निहित मकान सं. 905/3 (पुरा संग 09.01.2021 से भविष्य का व्याज उसपर @ 7.80% मकान सं. ८-64), खेवन (जाता र वार्षिक वकुवृत्ती मासिक वर और सभी लागतां, प्रभारों और बैंक द्वारा 685/790 मिन का पुराना माग, रेक्ट र रंजना कुमारी पाल पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह और खर्च व्ययों 91, किल्ला सं. 23(8–0) स्थित सुभाष कॉलोनी, लालकोठी के पास, बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, मापक 60.00 क गारंटर(रों) :– श्री राजेंद्र गज, स्वामित्व और कब्जा द्वारा श्रीमती रंजना कुमारी पाल पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी मकान सं. 1700,

सेक्टर 09, फरीदाबाद का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। **सीमांकन :— उत्तर :** अन्य प्लॉट, **पूर्व :** अन्य प्लॉट, **पश्चिम :** शेष भाग, **दक्षिण :** 15 फुट चौड़

**दिनांक**: 23.01

GOOD **BUSINESS MORNING!** 

**HAVE A** 

To book your copy,

SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

**Business Standard** 

Insight Out

KE

कईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यातयः क्षी—90, आंखला आंधोगिक क्षेत्र, फंज—1, गई दिल्ली—110020 (CNL:7489901-1992P. CO51527) फोन: +91-11-28818840, 26816842, 26815558, 26815559; फेन्स: +91-11-26811959, 26817225; चेन्स: cs@kei-ind.com; वेबसाइट: www.kei-ind.com

सूचना

सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण ावश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 42 व वेनियम 47 के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91, (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम, 2014 के नियम 10 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू अन्य प्रावधानों के साथ पठित, निदेशक मंडल ने 23 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में ₹ 2.00 /- अकित नूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 3.00 / (यानी 150%) के अंतरिम लाभाश घोषणा की है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के डक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभाश प्राप्त करने के शेयरधारकों के हक को निर्धारित करने के उद्देश्य से 3 फरवरी, 2023 को **''रिकॉर्ड तिथि'**' के रूप में निर्धारित किया गया है।

निवेशक अधिक जानकारी के लिए कंपनी की बसाइट (www.kei-ind.com) और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और <u>www.nseindia.com</u>) पर जा सकते हैं।

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेंड के लिए हस्ता /— (किशोर कनाल)

दिनाकः 23.01.2023 (किशार कुनाल) स्थानः नई दिल्ली एवीपी (कॉर्पोरेट वित्त) और कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय पत्ते पर भी भेजेगा: 4317/3, असारी सेड, दिप्यागंज नई दिल्ली सेट्टल दिल्ली 110002 आवेदक की ओर से व जन्हीं के लिए आएगस्स पावर सोल्यूशन्स प्राह्ववेट लिमिटेड इस्ता./—

परिशिष्ट Ⅳ देखें नियम 8(1) कब्बा सूचन (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि

इंडिड्याबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृ अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रवशन ऑफ फायनांशियर ासेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों व उपयोग करके कर्जदार **राकेश भंडारी और वीणा भंडारी** को **20.06.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसा कर्ज खाना नं. HHENOI00156251 की राशि रू.5,47,152.40 🖊 (रुपए पाँच लाख सैंतालीस हजा **एक सौ बावन और चालीस पैसे मात्र) और 20.06.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप ने की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी धनराणि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतनदार कर्जदार और सर्व सामान बनतार हो बुक्ता बन्न न बन्नावर्स के अवस्तरार हुन के कि है. जनता को सुचना दी जाती है कि, अधोहस्तासरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के सा उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एम्कोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.01.2023 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है वेशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततुद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लि गावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.5,47,152.40 🖊 (रूपए पाँच लाख तेंतालीस हजार एक सौ बावन और चालीस पैसे मात्र) 20.06.2022 के अनुसार और उस पर ब्या साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्ग संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय फ्लैट/मकान नंबर -173) मापित एरिया 68.76 स्के.मी. जिसका कवर्ड एरिया 41.4 स्के.मी.(447.57 स्के.फीट) सेक्टर -10 में, तल मंजिल (आराधना) पर, आवासीय कॉलोनी अंसर चिरंजीव विहार में, गाँव महरौली, तहसील और जिला, गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद -201002, उत्त प्रदेश और फ्लैट निम्ननुंसार परिबद्ध है:-

पर्व : 4.5 मीटर चौडा रोड

पश्चिम : मकान नंबर 147 दक्षिण: मकान नंबर 171

दिनांक :18.01<u>.</u>2023 स्थान :गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिव इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

देखें नियम 8(1) कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृ अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशिय असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धार 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों क उपयोग करके कर्जदार अंकर शर्मा प्रॉपराइटर देवांशी किराना स्टोर, मनी शर्मा और मालती शर्म को 29.12.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLMER00492294 की राशि रू.12,83,214.65 /- (रुपए बारह लाख तिरासी हजार दो सौ चौदह और पैंसठ पैसे मात्र) और 30.11.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकर करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी I

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामा जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्कोर्सनेस्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.01.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशोषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततुद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.12.83.214.65 /- (रुपए बारह लाख तिरासी हजार दो सौ चौदह और पैंसठ पैसे मात्र) 30.11.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के सा इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्ग संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

रेजिडेंशियल फ्लैट नं.-Q-001 की तल मंजिल रूफ राईट्स के बिना, मापित 76.82 स्के.मी. यानि सुपर एरिया का 827 स्के.फीट, पार्क व्यू एस्टेट में स्थित, ए ब्लॉक, सोमदत्त सिटी कॉलोनी, रेवेन्यू गाँव सराय काज़ी, मेरठ -250004, उत्तर प्रदेश और जो निम्ननुंसार परिबद्ध है: णश्चिम:फ्लैट का दरवाजा फिर आम रस्ता

पूर्व: फ्लैट नं. P-003 उत्तर: बालकनी फिर आसमान तक खुला दक्षिण: फ्लैट नं. Q-002

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

**基**amber

# AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED

Registered Office: C-1, Phase – II, Focal Point, Rajpura Town – 140 401, Punjab Corporate Office: Universal Trade Tower, 1st Floor, Sector -49, Sohna Road, Gurgaon - 122 018, Haryana **E-mail:** info@ambergroupindia.com; **Website:** www.ambergroupindia.com Tel: +91 124 3923000; Fax: +91 124 3923016, 17, CIN: L28910PB1990PLC010265

# Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2022

(Rs. in lakh except for per share data)

		Consc	olidated			<b>」</b> │	Standalone						
Т	hree months er	ided		ite figures for inths ended	Year ended			TI	nree months end	ied	Year to date nine mont		Year ended
31 December	30 September	31 December	31 December	31 December	31 March	SI. No.	Particulars	31 December	30 September	31 December	31 December	31 December	31 March
2022	2022	2021	2022	2021	2022			2022	2022	2021	2022	2021	2022
(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1,34,830.59	75,044.47	97,429.07	3,92,447.66	2,26,970.24	4,20,639.73	1.	Total Income from Operations	91,229.11	32,782.12	66,209.50	2,67,180.85	1,58,105.56	3,13,760.43
2,220.99	(731.88)	4,283.63	7,375.47	6,841.04	15,427.15	2.	Net (Loss) / Profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	-706.36	-3,264.49	1,820.23	-2,090.30	2,055.81	6,979.60
2,220.99	(731.88)	4,283.63	7,375.47	6,841.04	15,427.15	3.	Net (Loss) / Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-706.36	-3,264.49	1,820.23	-2,090.30	2,055.81	6,979.60
1,507.61	(229.05)	3,293.75	5,567.84	5,202.10	11,132.30	4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-549.79	-2,363.78	1,447.90	-1,599.75	1,570.71	4,810.02
1,632.65	(667.88)	3,245.47	5,300.15	5,493.02	11,656.65	5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-504.07	-2,729.23	1,374.52	-1,889.35	1,789.51	5,279.71
3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37	6.	Equity Share Capital (Face Value Rs.10 Each)	3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37
-	-	-	-	-	1,70,051.60	7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	•	-	-	1,56,075.13
						8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) –						
4.20	(0.88)	9.53	15.80	15.43	32.41		Basic earnings per share (in rupees)	-1.63	-7.02	4.30	-4.75	4.66	14.28
4.20	(0.88)	9.53	15.80	15.43	32.41		Diluted earnings per share (in rupees)	-1.63	-7.02	4.30	-4.75	4.66	14.28

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended time to time). The full format of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022 is available on the Company's website (www.ambergroupindia.com) and on the website of the stock exchanges where the Company's equity shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

Figures of the previous periods have been regrouped/rearranged/reclassified, wherever necessary to comply with financial reporting requirements

For Amber Enterprises India Limited

Date: 23 January 2023

(Chairman & CEO)

अध्यक्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष के स्वर्ध के प्रजय से दूसरे राज्य में अंतरित करने हेतु समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केंद्र सर्कार उत्तर क्षत्र कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 13 की उप—धार (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप—नियम (6) के खंड (ए) के मामले में और

आएएमएस पावर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड ("याचिकाकर्ता कंपनी") इसका पंजीकृत कार्या 4317/3, अंसारी रोड, दिरयागंज नई दिल्ली सेंट्रल दिल्ली 110002

अाम जनता को सूचित किया जाता है कि या कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियः 2013 की धारा 3 के अधीन आवेदन का प्रस्ताः करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्याल 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'राजस्था राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए दिनांक श दिसंबर, 2022 को आयोजित असाधारण साधार अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ

अधिवेशम में पारित विशाष सकत्य क सदम म रुपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की गंग की गई हैं। इंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तादित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत** इं**प्लिप फाइल कुर् एमसीए—21 पोर्टल** होता है तो यह व्यक्ति या तो निवेशक शिकाय प्रारूप फाइल कर एमसीए—21 भो टेर (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर राक्त है या एक शायश पत्र जिसमें उनके हित का प्रका श्री एउस होता है का प्रका श्री एउस होता है का उनका एउसिया हो हो तथा अपनी आपिता इस सुमान के प्रकाशन के जाताशन की स्वीद्ध होती होता है अपने स्वीद्ध होता है अपने अपने अपने अपने अपने अपने स्वीद्ध होता है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद्ध होता है अपने स्वीद है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद है अपने स्वीद है अपने स्वीद होता है अपने स्वीद है अप यु. ताजाजा प्राप्तयस्य तु. मुच्या १५८०० व जीकृत डाक द्वारा भेज या सुपुर्द कर सकता रेर इसकी प्रति इसकी उनके निम्नलिखि जीकत कार्यालय पते पर भी भेजेगा :

दिनांक : 24.01.2023 स्थान : दिल्ली